



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 माघ 1932 (श0)
(सं0 पटना 44) पटना, सोमवार, 14 फरवरी 2011

सं0 3ए-2-वे0पु0(भत्ता0)-17/09/1281/वि0

वित्त विभाग

संकल्प

14 फरवरी 2011

विषय:- वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण भत्ता के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति के संबंध में ।

केन्द्रीय षष्ठम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया था । उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा भत्ते आदि पर सम्यक अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया ।

(2) वेतन समिति/त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नरूपेण पुनरीक्षित दर पर प्रशिक्षण भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है :-

प्रशिक्षण भत्ता:-राज्य के प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न सेवाओं के प्रतिनियुक्त प्रशिक्षकों को मूल वेतन का 15 प्रतिशत ।

(3) नई वेतन संरचना में मूल वेतन से आशय उस वेतन से होगा जो वेतन बैंड में निर्धारित वेतन एवं लागू ग्रेड वेतन के जोड़ से आहरित किया जायेगा, किन्तु इसमें विशेष वेतन या अन्य किसी प्रकार का वेतन शामिल नहीं होगा ।

(4) प्रशिक्षण संस्थान के लिए नियुक्त कर्मियों/प्रशिक्षकों को यह देय नहीं होगा ।

(5) यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 44-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>